



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 3, 1977/पौष 13, 1898

No. 3] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 3, 1977/PAUSA 13, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## DEPARTMENT OF REVENUE & BANKING

(Revenue Wing)

ORDER

New Delhi, the 3rd January 1977

S.O. 9(E).—In exercise of the powers conferred by section 5, read sub-section (2) of section 27, of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. S.O. 41(E) [No. 1205/F. No. 414/2/76-IT (Inv)], dated 15th January, 1976, namely—

In the Table below the said notification—

- (i) in the entry in column (3) against serial No. 1, for the word "Poona", the word "Pune" shall be substituted;
- (ii) for the entry in column (3) against serial No. 3, the following entry shall be substituted, namely—

"All persons specified in sub-section (2) of section 2 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976) and who are assessed or are assessable to income-tax in, or who ordinarily reside within, the jurisdiction of the Commissioners of Income-tax with Headquarters at Bangalore, Coimbatore, Ernakulam, Hyderabad and Madras and the Commissioner of Income-tax (Central) with Headquarters at Madras."

[No 4/F. No. Admn.(6)/76-Safema]

N. P. BHAT, Dy Secy.

## राजस्व और बीमा विभाग

(राजस्व पक्ष)

आदेश

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1977

का० आ० 9(अ).—तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की धारा 27 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 41(अ) [संख्या 1205, फा० सं० 414/2/76-आ० क० (आ०)], तारीख 15 जनवरी, 1976 के अन्तर्गत निकाले गए आदेश में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना के नीचे सारणी में, —

- (i) \* \* \* \* \*
- (ii) मद संख्यांक 3 के सामने स्तम्भ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्

“तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की धारा 2 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सभी व्यक्ति तथा जो उन आय-कर आयुक्तों, जिनका मुख्यालय बंगलौर, कोयम्बतूर, एनई-कुलम, हैदराबाद और मद्रास में स्थित है तथा आय-कर आयुक्त (केन्द्रीय) जिनका मुख्यालय मद्रास में स्थित है, की अधिकारिता में आय-कर से प्रभावित है अथवा प्रभाव्य है, अथवा उभों अन्तर्गत सामान्यतया निवाम करते हैं।”

[स० 4/फा० सं० प्रशा० (6)/76-सफेमा]

एन० पी० भट, उप सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा नियन्त्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977